



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

11 चैत्र 1941 (श0)  
(सं० पटना 511) पटना, सोमवार, 1 अप्रील 2019

---

सं० 03 / Smart City-02-07/2017-683  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प  
5 मार्च 2019

**विषय:-** केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ शहर में Smart City योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित SPV कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक 19/1/2018 द्वारा Smart City मिशन योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य बिहारशरीफ शहर का आर्थिक संवर्द्धन और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास करना है, साथ ही प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों की मांग प्रशस्त करती है, से चयनित शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना में क्षेत्र-आधारित विकास (Area Based Development) एवं पूर्ण शहर आधारित विकास (Pan City Development) की योजनायें ली जायेगी। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहरी अवस्थापना और सेवाएँ बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की जानकारी और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इससे बिहारशरीफ शहर के नागरिकों का चहुँमुखी विकास, जीवन की गुणवत्ता सुधार, रोजगार के अवसर और सभी के लिए विशेष तौर से गरीबों और वंचितों की आय में वृद्धि हो सकेगी, जिससे बिहारशरीफ शहर के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु एक (Special Purpose Vehicle) SPV के रूप में बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक-03/smartycity-01-05/2016-1067 दिनांक 27/4/2018 द्वारा किया गया है।

2. बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में गठित SPV के संचालन हेतु पाँच वर्षों के लिए संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु निम्न पदों के सृजन का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पद का नाम	नियुक्ति का प्रकार	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अधिकतम उम्र सीमा	मानदेय (प्रति माह) प्रति पद	वार्षिक वित्तीय भार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chief Executive Officer (CEO)	संविदा आधारित	1	(i) Master in Business Administrative/ PGDM or Equivalent from reputed institutions of India or Abroad and (ii) Graduation in Engineering/ from reputed institution, with at least 60% marks or equivalent grade point average.	(i) Not less than 15 years of post-qualification experience in managerial capacity in an equivalent or similar position in reputed organization, of which not less than 5 years in urban or Infrastructural sector. (ii) International engagement will be considered as an added advantage. In addition to technical Competence, equal Importance will be given to strategic thinkers, with a development mind set, an effective personality and an ability to build external and internal relationships.	58	225000	2700000
2	Chief General Manager (CGM)	संविदा आधारित	1	For Contractual-Bachelors/Master's in Civil Engineering with Master of Planning or MBA or construction Management or Master of Engineering in Urban infrastructure related subject.	Not less than 12 years of Experience water supply, Roads, Sewerage Networks, Urban Infrastructure, project formulation, Review of consultancy report, work and progress monitoring	55	150000	1800000

क्र० सं०	पद का नाम	नियुक्ति का प्रकार	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अधिकतम उम्र सीमा	मानदेय (प्रति माह) प्रति पद	वार्षिक वित्तीय भार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Chief Finance Officer (CFO)	संविदा आधारित	1	For Contractual- Graduation in any discipline with at least 60% marks or equivalent grade point average and Member of institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost Accountant of India or ICA or AICWAI. Preference will be given to those candidates who are also a Member of Institution of company Secretaries of India.	For Contractual- Not less 10 years of post qualification experience in managerial capacity in an equivalent of similar position in a reputed organization. For Deputation /Retired- Having post qualification experience of not less than 20 years in financial matters or services.	55	125000	1500000
4	Sr.Manager (Technical)	संविदा आधारित	2	For Contractual- B.E/B.Tech(Civil Engineering)	Not less than 10 years of post qualification experience in relevant field.	50	100000	2400000
5	Company Secretary (CS)	संविदा आधारित	1	Graduation in any discipline with at least 60% marks or equivalent grade point average and Member of Institute of company secretaries of India.	Not less than 05 years of post qualification experience in managerial capacity in an equivalent or similar position in a reputed organization. LLB will be an added advantage.	50	90000	1080000
6	Manager (Technical)	संविदा आधारित	3	For Contractual- B.E/B.Tech (Civil or Mechanical Engineering)	Not less than 06 years post qualification experience in relevant field.	50	85000	3060000

क्र० सं०	पद का नाम	नियुक्ति का प्रकार	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अधिकतम उम्र सीमा	मानदेय (प्रति माह) प्रति पद	वार्षिक वित्तीय भार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Manager (Finance & Procurement)	संविदा आधारित	1	Member of ICAI	Not less than 05 years Experience in finance/Account in reputed organisation Qualification of CMA will be an added advantage.	45	8.5000	1020000
8	Manager (Monitoring & Evaluation)	संविदा आधारित	1	MBA/PGDM or B.E/B.TECH or Equivalent	Not less than 06 years of post Qualification Experience of which not less than 4 years in project Monitoring in Government/Public Sector.	40	8.5000	1020000
9	Manager (Implementation & Control)	संविदा आधारित	1	MBA/PGDM or B.E/B.TECH or Equivalent	Not less than 06 years of post qualification experience of which not less than 4 years in project Monitoring in Government/Public Sector.	40	8.5000	1020000
10	Manager (IT)	संविदा आधारित	1	B.E/B.Tech/MCA in computer Science/IT or Equivalent	(i) Not less than 06 years of post qualification experience in reputed organisations. (ii) Experience of working with Govt.organisation will be an added advantage.	40	8.5000	1020000
11	Public Relation Officer (PRO)	संविदा आधारित	1	Master of PG Diploma in Journalism/Mass Communication or equivalent from a reputed institution.	Not less than 05 years of post qualification experience in relevant field.	40	70000	840000
12	Accountant	संविदा आधारित	2	M.B.A/PGDM or Equivalent in financial Management or B.Com/M.Com or Equivalent knowledge on tally.	Not less than 04 years of Experience in finance/Accounts in reputed organisations tally knowledge must.	40	3.5000	840000

क्र० सं०	पद का नाम	नियुक्ति का प्रकार	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अधिकतम उम्र सीमा	मानदेय (प्रति माह) प्रति पद	वार्षिक वित्तीय भार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Office Executive cum Assistant	संविदा आधारित	6	Graduate in any discipline with knowledge of Computer.	Not less than 02 years of experience in Data Entry.	40	30000	2160000
14	Stenographer	संविदा आधारित	2	Graduation in any discipline with knowledge of short hand writing & Computer.	Not less than 02 years of experience in Stenography.	35	25000	600000
15	Computer Operator	Out Sourcing Basis	As per requirement	—	—	—	—	—
16	Peon/Helper	Out Sourcing Basis	As per requirement	—	—	—	—	—
Total								21060000

(दो करोड़ दस लाख साठ हजार रू० मात्र वार्षिक व्यय भार)

इन वर्णित पदों का सृजन संविदा के आधार पर पाँच वर्षों के लिए किया जायेगा। इन पदों पर नियोजन हेतु अभ्यर्थियों के अर्हता का निर्धारण SPV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया गया है। इन पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः तीन वर्षों के लिए की जायेगी। इसके बाद उनके कार्यकलाप एवं आवश्यकता के आधार पर उनकी सेवा अवधि एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम दो वर्षों तक SPV के द्वारा विस्तारित की जा सकेगी।

3. उक्त पदों पर होने वाले नियोजन में SPV द्वारा बिहार सरकार के आरक्षण के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

4. विकल्प के रूप में यदि सेवानिवृत्त कर्मियों की नियोजन की जाती है, तो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक-10000, दिनांक 10.07.2015 में अंकित प्रावधान प्रभावी होगा। अगर यह नियोजन खुले बाजार से की जाती है, तो उपस्थापित प्रस्ताव में अंकित प्रावधानों के तहत नियोजन की जा सकेगी।

5. SPV कंपनी बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि०, के कार्यों को संचालित करने हेतु वर्णित पदों के सृजन के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार राशि 210.60 लाख रू० (दो करोड़ दस लाख साठ हजार रू० मात्र) होगा। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को आवंटित होने वाली केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल राशि के अंतर्गत प्राप्त (Administrative and other Expences) A&OE के लिए 05 प्रतिशत राशि कर्णांकित है। वार्षिक व्यय का वहन कर्णांकित A&OE के राशि से किया जाएगा। इसी मद से उपरोक्त तालिका के क्रमांक 15 एवं 16 पर अंकित Computer Operator एवं Peon / Helper की सेवाएँ, जिसे Outsourcing से प्राप्त किया जाएगा, के मानदेय का वहन किया जाएगा।

6. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 05.03.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं०-39 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

7. अतः केन्द्र प्रायोजित **Smart City Mission** योजना के अंतर्गत बिहारशरीफ शहर में **Smart City** योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित **SPV** कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित किया जाता है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना—सह—अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि०, बिहारशरीफ/जिला पदाधिकारी, नालंदा/CEO, Smart City Ltd—सह—नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,  
चैतन्य प्रसाद,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 511-571+200-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>